

an>

Title: The Minister of External Affairs informed the House about death of 39 Indians at Mosul, Iraq. The Minister sought to make a statement . However, due to interruptions in the house, the Minister could not make the statement.

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदया, कई बार इस सदन में चर्चा हुई है।... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह ऐसा विषय नहीं है, जिसे मैं शोर-शराबे में रखना चाहूंगी।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सभी सांसदों से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं एक अशुभ सूचना संसद को देना चाहती हूँ, जो शोर-शराबे में नहीं दे सकती।... (व्यवधान) मामला बहुत संजीदगी का है।... (व्यवधान) यह इराक में बंधक 39 भारतीयों से संबंधित विषय है, जिस पर इस सदन ने बहुत बार चर्चा करवाई है और हर बार मैंने कहा कि जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत उनके जिंदा या मृत होने का नहीं होगा, तब तक मैं उन्हें मृत घोषित नहीं करूंगी।... (व्यवधान) आज मैं सबूत लेकर आई हूँ, इसलिए उस सबूत को यहां रखना चाहती हूँ।... (व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि कृपया शांत रह कर मेरी बात सुन लीजिए।... (व्यवधान) राज्य सभा में सभी सांसदों ने साथ दिया और बहुत शांति से मैं अपनी बात रख सकी।... (व्यवधान) मैं लोक सभा में उतनी ही शांति से अपनी बात रखना चाहती हूँ क्योंकि जो डी.एन.ए. सैम्पल्स हमने भेजे थे, उनमें से 38 लोगों के सैम्पल्स मैच कर गए।... (व्यवधान) इसका मतलब है कि 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है।... (व्यवधान) 39 डी.एन.ए. सैम्पल्स में काफी, 70 प्रतिशत डी.एन.ए. मिल गया है।... (व्यवधान) मैं ऐसी खबर शोर-शराबे में कैसे दे सकती हूँ?... (व्यवधान) यह सारा काम जितना कठिन था, वह कैसे हुआ, यह मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर इस तरह का शोर होता रहेगा तो मैं लंबी बात नहीं बता पाऊंगी।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, भारतीय समयानुसार डेढ़ बजे मार्टियस फाउंडेशन की हेड इराक से प्रेस-काँफ्रेंस करने वाली हैं।... (व्यवधान) मैं नहीं चाहती हूँ कि देश, दूसरे देश के लोगों के माध्यम से इसको जाने।... (व्यवधान) जब आपके विदेश मंत्रालय के पास पूरी जानकारी है तो बेहतर है कि मैं सदन में जानकारी दूँ।... (व्यवधान) मैं राज्य सभा में जानकारी देकर आई हूँ।... (व्यवधान) सभी ने बहुत ही शांति से वह बात सुनी।... (व्यवधान) मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे शांति का दान दें तो मैं लोक सभा में भी उस बात को उसी तरह से आपके सामने रख सकूँ।... (व्यवधान) अगर यही शोर-शराबा होगा, तो मैं नहीं बोल पाऊंगी।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not proper.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please, listen to her.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You just do not want to listen it.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या मानवता से इतने बाहर हो गए?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या मानवता से इतने परे हो गए हो?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You do not have any feeling for them. This is not proper at all.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप इतने संवेदनहीन मत बनें। आप लोग इस तरह की राजनीति मत कीजिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This will spoil our image.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is a very sorry state of affair. I am sorry.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, Reports of Standing Committee on Health and Family Welfare – Dr. Sanjay Jaiswal.

12 07 hrs